



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 468]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 1982/आश्विन 22, 1904

No. 468]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1982/ASVINA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1982

का० आ० 735 (अ) — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के समुदोष पर 14 अक्टूबर, 1982 से हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि राजस्थान राज्य के कोटा तथा जालावाड़ जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1 (20)/82-आर०आर०बी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th October, 1982

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, on being requested to do by Central Bank of India, establishes, with effect

843 GI/82

from the 14th October, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Rajasthan under the name of Hadoti Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Kotah and Jhalawar in the State of Rajasthan.

[No. F. 1(20)/82-RRB(I)]

का० आ० 736 (अ) :— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से परामर्श करके, कोटा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय होगा।

[संख्या एक० 1 (20) 82-आर०आर०बी० (2)]

S.O. 736(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Hadoti Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Kotah as the place where Hadoti Kshetriya Gramin Banks shall have its head office.

[No. F. 1(20)/82-RRB(II)]

का० आ० 737 (अ) :— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा को प्रादेशिक

(1)

ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करने है।

[संख्या एक 1(20)/82-प्रारंभिक.बी. (3)]

बी. के. दीक्षित, संयुक्त सचिव

S.O. 737(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kotah being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1(20)/82-RRB(III)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1982

कां. आ. 738(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एन.डी.आर. और एल. एम. कोशिक को हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14-10-1982 से प्रारम्भ होकर 13-10-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान और एल. एम. कोशिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1-20/82-प्रारंभिक.बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 1982

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri L. M. Kaushik as the Chairman of the Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kotah and specifies the period commencing on the 14-10-82 and ending with the 13-10-1985 as the period

for which the said Shri L. M. Kaushik shall hold office at such Chairman.

[No. F. 1-20/82-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अधिसूचना

बम्बई, 14 अक्टूबर, 1982

कां. आ. 739(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एन.डी.आर. निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

“हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)”

[प्रारं. पी. सी. संख्या 241/आई. एन. सी. एल. 311-82]

हं/—

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Rural Planning and Credit Cell

NOTIFICATION

Bombay, the 14th October, 1982

S.O. 739(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

“Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kotah (Rajasthan)”

[RPCC No. 241/INCL/311-82]

Sd/-

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director